



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 चैत्र 1947 (श10)
(सं0 पटना 209) पटना, बृहस्पतिवार, 27 मार्च 2025

सं0 सं0 एम-4-26/2013—3515/वि0
वित्त विभाग

संकल्प
26 मार्च 2025

विषय:-संचालन शुल्क (Centage) के निर्धारण के सम्बन्ध में ।

राज्य में विकास कार्यों की गतिशीलता बनाये रखने एवं निर्माण कार्यों को ससमय सुगमतापूर्वक सम्पादित करने के उद्देश्य से कतिपय विभागों के अधीन बोर्ड/निगम की परिकल्पना एवं स्थापना हुई, जो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त राशि से कार्य सम्पादित कराते हैं । इस प्रकार की सेवा प्रदान करने के प्रतिफल के रूप में बोर्ड/निगम को निर्माण कार्य/योजना/परियोजना की मूल प्राक्कलित राशि के परिप्रेक्ष्य में Centage प्रदान किया जाता है, जिसकी दरें वित्त विभागीय अधिसूचना सं0-653 दिनांक-25.01.2016 (यथा, अनुलग्नक-1) द्वारा निम्नवत् प्रभावी हैं:-

क्र०	कार्य की लागत	Centage की दर
1.	परियोजना लागत 10 करोड़ रुपये तक	7%
2.	परियोजना लागत 10 करोड़ रुपये से अधिक एवं 100 करोड़ रुपये तक	10 करोड़ रुपये तक 7% + 10 करोड़ रुपये से अधिक एवं 100 करोड़ रुपये तक की परियोजना की राशि पर प्रति करोड़ 5%
3.	परियोजना लागत 100 करोड़ रुपये से अधिक	10 करोड़ रुपये तक 7% + 10 करोड़ रुपये से अधिक एवं 100 करोड़ रुपये तक की परियोजना की राशि पर प्रति करोड़ 5% + 100 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजना की राशि पर प्रति करोड़ 1%

2. संदर्भित अधिसूचना की कंडिका-iii में यह भी स्पष्ट किया गया है कि Centage का दर मूल प्राक्कलन की राशि पर देय होगा न कि संशोधित प्राक्कलन पर । कालांतर में वित्त विभागीय पत्रांक-8233 दिनांक-18.09.2023 द्वारा Centage की राशि से ही बोर्ड/निगम को GST की वैधानिक देयता/दायित्व का भुगतान किये जाने संबंधी स्पष्टीकरण (Clarification) भी संसूचित किया गया ।

3. सम्प्रति कतिपय प्रशासी विभाग के स्तर से निर्माण कार्य/योजना/परियोजना में मूल प्राक्कलित राशि से कम वास्तविक व्यय होने की स्थिति में Centage के दर की अनुमान्यता के संबंध में परामर्श मांगा जा रहा है। इसके अलावा कतिपय विभागों द्वारा Centage की राशि के भुगतान के क्रम में Centage की राशि के निर्धारण एवं GST की राशि के निर्धारण के संबंध में भी परामर्श की अपेक्षा की गई है।

4. अतएव सम्यक विचारोपरांत Centage के निर्धारण के संबंध में निम्न निर्णय संसूचित किये जाते हैं:-

- I. बोर्ड/निगम द्वारा निर्माण कार्य/योजना/परियोजना के क्रियान्वयन के क्रम में Centage के निर्धारण की अधिकतम सीमा पूर्ववत मूल प्राक्कलित राशि होगी, परंतु मूल प्राक्कलित राशि से कम व्यय होने की स्थिति में वास्तविक व्यय के आधार पर Centage की राशि का निर्धारण होगा।
- II. वित्त विभागीय अधिसूचना सं०-653 दिनांक-25.01.2016 (कडिका-i) द्वारा निर्धारित Centage की दरें यथावत रहेंगी।
- III. Centage के रूप में प्राप्त राशि से ही बोर्ड/निगम द्वारा GST एवं अन्य वैधानिक देयता/दायित्व का भुगतान किया जायेगा एवं इस क्रम में कोई अतिरिक्त राशि अनुमान्य नहीं होगी तथा GST की दर परिवर्तित होने के स्थिति में भी Centage की दरें अप्रभावी रहेंगी।

5. उदाहरणस्वरूप यदि किसी निर्माण कार्य/योजना/परियोजना की प्राक्कलित राशि/वास्तविक व्यय 10 करोड़ रुपये हो तो उस पर 7% की दर से Centage की राशि 70 लाख रुपये अनुमान्य होगी एवं उक्त Centage की राशि पर 18% की दर से GST की राशि 12.60 लाख रुपये होगी। इस प्रकार Centage के रूप में प्राप्त उक्त 70 लाख रुपये से ही GST की देयता 12.60 लाख रुपये का भुगतान किया जायेगा तथा शेष 57.40 लाख रुपये संबंधित बोर्ड/निगम की होगी। GST की दर परिवर्तित होने की स्थिति में भी Centage की दर अपरिवर्तित रहेगी तथा अनुमान्य Centage की राशि से ही GST की देयता का भुगतान करना होगा।

6. पूर्व में निर्गत सभी संकल्प/दिशा-निर्देश/आदेश इस संकल्प के निर्गत की तिथि से इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार को भेजी जाय।

आदेश से,
आनन्द किशोर,
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 209-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>